

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2014—भाद्र 6, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014

क्र. 84-वि.निर्वा.-चार-2014-उपचुनाव-12214.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में 92—विजयराघवगढ़, 94—बहोरीबंद एवं 166—आगर (अ.जा.) से मध्यप्रदेश विधान सभा के रिक्त पद को भरने हेतु संपन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा प्ररूप 21-घ, जिसमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

(नियम 64 देखिये)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप—21-घ

(नियम 64 देखिये)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की 92—विजयराघवगढ़ विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं, घोषणा करता हूँ कि—

श्री संजय पाठक

ग्राम बरमानी, तह. बरही, जिला कटनी (म.प्र.)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं.

उस सदन में श्री संजय पाठक के पद त्याग के कारण श्री संजय पाठक का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए स्थान के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी

तारीख 25 अगस्त 2014

हस्ता./-

(शिवगोविंद मरकाम)

रिटर्निंग आफिसर,

92—विजयराघवगढ़.

CONDUCT OF ELECTION RULES, 1961
(STATUTORY RULES AND ORDER)
FORM 21D
(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State) from 92—Vijayraghavgarh Assembly Constituency.

In pursuance of the provision contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that—

Shri SANJAY PATHAK

Gram Barmani, Tehsil Barhi, District Katni

(sponsored by BHARTIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that house from the

* resignation of Shri SANJAY PATHAK having become.

* seat of Shri SANJAY PATHAK having been declared vacant.

Place : KATNI

Date : 25th August 2014

Sd/-

(SHIV GOVIND MARKAM)

Returning Officer,

92—VIJAYRAGHAVGARH.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप—21-घ

(नियम 64 देखिये)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

94—बहोरीबंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं, घोषणा करती हूँ कि—

श्री कुँवर सौरभ सिंह, ग्राम भटगवां सुनहरा गुबराधरी तहसील/जिला कटनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं. उस सदन में श्री प्रभात पाण्डेय (बड़े बब्बू) की मृत्यु के कारण श्री प्रभात पाण्डेय (बड़े बब्बू) का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : कटनी
तारीख 25 अगस्त 2014

हस्ता./-
(रानी पासी)
रिटर्निंग आफिसर,
94—बहोरीबंद.

CONDUCT OF ELECTION RULES, 1961
(STATUTORY RULES AND ORDER)
FORM 21D
(See Rule 64)

[For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested]

Declaration of the result of Election under Section 66 of Representation of the people Act, 1951

Bye Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State) from 94—Bahoriband Assembly constituency.

In pursuance of the provision contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that—

Shri KUNWAR SAURABH SINGH
Village Bhatgawa Sunehra Gubradhari, Tehsil / District Katni
(sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that house by the

* death of SHRI PRABHAT PANDEY (Bade Babbu)

* seat of SHRI PRABHAT PANDEY (Bade Babbu) having been declared vacant.

Place : KATNI
Date : 25th August 2014

Sd/-
(RANI PASTI)
Returning Officer,
94—Bahoriband..

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप—21-घ

(नियम 64 देखिये)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश के 166—आगर (अजा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं, घोषणा करता हूँ कि—

श्री गोपाल परमार (नाम),

ग्राम आगर, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (पता)

(जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए)

उस सदन में श्री मनोहर उंटवाल के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : आगर मालवा
तारीख 25 अगस्त 2014

हस्ता./-
(जी. एस. डाबर)
रिटर्निंग आफिसर,
166—आगर (अ.जा.).

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961
(STATUTORY RULES AND ORDER)
FORM 21D
(See Rule 64)

[For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested]

Declaration of the result of Election under Section 66 of Representation of the People Act, 1951

*Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State/ Union territory) from 166—Agar (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that—

Gopal Paramar S/o Nanalal Paramar (Name)

Village Agar, Tehsil Agar, District Agar Malwa

¹[sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/ registered Political Party) has been duly elected to fill the Vacancy caused in that house by the Resignation of SHRI MANOHAR OONTWAL

seat of SHRI MANOHAR OONTWAL having been declared vacant.

Place : AGAR MALWA
Date : 25th August 2014

Sd/-
(G. S. DABAR)
Returning Officer.
166—AGAR (SC).